



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ 1930 (श0)
(सं0 पटना 39) पटना, वृहस्पतिवार, 19 फरवरी 2009

सं0 9273

कृषि विभाग

संकल्प

17 दिसम्बर 2008

भारत सरकार द्वारा एक नयी केन्द्र प्रायोजित योजना "नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट आफ स्वायल हेल्थ एंड फर्टिलिटी" की शुरुआत वर्ष 2008-09 से की गई है। योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु 1.6.9 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य परियोजना स्वीकृति सह अनुश्रवण समिति (State Project Sanctioning-cum-Monitoring Committee) के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य परियोजना स्वीकृति सह अनुश्रवण समिति का संगठन निम्न प्रकार होगा:-

प्रधान सचिव, कृषि	अध्यक्ष
कृषि निदेशक	सदस्य सचिव
निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी क्षेत्र, पटना	सदस्य
अध्यक्ष, मृदा विज्ञान विभाग, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	सदस्य
राज्य विपणन प्रबंधक, लीड फर्टिलाइजर सप्लायर, बिहार, पटना	सदस्य

समिति के कृत्य

1. समिति परियोजना अन्तर्गत उपयुक्त प्रस्तावों का चयन करेगी।
2. समिति राष्ट्रीय स्तर पर गठित परियोजना स्वीकृति सह अनुश्रवण समिति की स्वीकृति के लिए उपयुक्त प्रस्तावों की अनुशंसा करेगी।
3. समिति परियोजना का राज्य में अनुश्रवण करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 39-571+200-डी0टी0पी0।